



Indraprastha Medical Corporation Limited

(Indraprastha Apollo Hospitals)

Regd. Office : Sarita Vihar, Delhi-Mathura Road, New Delhi – 110 076 (India)

Corporate Identity Number : L24232DL1988PLC030958

Phone:91-11-26925858,26925801,Fax: 91-11-26823629

E-mail: imclshares@apollohospitals.com, Website : <https://www.apollohospitals.com/delhi/>



Ref: IMCL/CS/Newspaper/2026

13th May, 2026

The Manager
Listing Department
BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai, Maharashtra - 400001
Scrip Code: 532150

The Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra East,
Mumbai, Maharashtra - 400051
Symbol: INDRAMEDCO

Sub.: Newspaper advertisement – Financial Results

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III (Part A) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby submit copies of the public notice of the financial results, published on 13th May, 2026, in the “Financial Express”, all India editions, in English language and in “Jansatta”, Delhi edition, in Hindi language.

You are requested to take the above information on record.

Thanking You,

Yours sincerely,

For Indraprastha Medical Corporation Limited

Priya Ranjan
AVP – Corporate Affairs & Legal
(Company Secretary & Compliance Officer)

Encl. as above

MOMENTUM SEEN IN APRIL NUMBERS LIKELY TO CONTINUE IN COMING MONTHS

Iran crisis, fuel price hike fears drive E2W sales

NARAYANAN V
Chennai, May 12

AFTER A 50% jump in April sales, electric two-wheeler (E2W) makers are expected to sustain strong growth momentum in the coming months as concerns over fuel shortages, a likely rise in petrol prices due to the ongoing US-Iran impasse and government messaging around conservative fuel usage drive a shift in consumer behaviour.

Prime Minister Narendra Modi on Sunday urged people to use petrol, diesel and gas with 'great restraint', calling it the 'need of the hour' amid the ongoing West Asia crisis, which has raised concerns over disruption of fuel supplies through the Strait of Hormuz, a key global oil transit route.

SWITCH HIT

Leading OEMs have acknowledged the shift in consumer behaviour amid the ongoing oil supply chain concerns

Electric two-wheeler (E2W) makers registered a **50% jump** in April sales



Prime Minister Narendra Modi on Sunday urged people to use petrol, diesel and gas with 'great restraint'

Ather's Rizta has crossed the **300,000-unit** sales milestone within two years of launch

Government messaging around fuel conservation adds to a broader concern around rising fuel costs that has been gaining

ground," said Poonam Upadhyay, director, Crisil Ratings. She added that while public appeals rarely influence purchase decisions, the bigger concern is that absorbing the widening gap between global crude prices and domestic retail

fuel prices is becoming increasingly difficult for state-owned oil marketing companies. "If retail fuel prices are eventually allowed to reflect that reality, the case for E2W only gets stronger and could in turn lead to

a meaningful uptick in inquiries and conversions," she added.

Leading OEMs have also acknowledged the shift in consumer behaviour amid the ongoing oil supply chain concerns. Ather Energy CEO Tarun Mehta said the oil crisis, even though it has not yet translated into higher petrol prices, could create a bigger demand upside for both Ather Energy and the broader E2W industry.

"Even without that, just the LPG crisis itself, I think, has put this question in the mind of every customer that maybe it is electric and electricity which is the most reliable commodity," Mehta said during the company's fourth-quarter earnings call last week.

He explained that the company is seeing a shift in consumer thinking from 'if you're buying an electric, then at least keep one petrol in the family, one petrol vehicle' to 'well, you can have all vehicles, but at least keep one electric vehicle in the family, for that rainy day'.

"So I think there is a larger shift underway here," Mehta added. The Bengaluru-based EV maker on Monday said its family scooter Rizta has crossed the 300,000-unit sales milestone within two years of launch. Rizta had crossed the 200,000-unit mark in December 2025 and added the next 100,000 units in just five months.

Govt clears ₹503 cr for 4.8K EV chargers

NITIN KUMAR
New Delhi, May 12

THE CENTRE HAS approved proposals worth ₹503.86 crore for the installation of 4,874 EV chargers across multiple states and Central Public Sector Enterprises (CPSEs), Heavy Industries Minister HD Kumaraswamy said on Tuesday.

The approved proposals include major CPSEs such as HPCL, IOCL and BPCL, along with states including Rajasthan, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Gujarat, Kerala, Telangana, Karnataka, and Tamil Nadu.

Kumaraswamy also said the ministry is working on the Uni-

fied Bharat e-Charge platform, which will enable EV users to discover, access and pay across charging networks through a single trusted interface.

The minister said that the initiative aims to address evolving infrastructure barriers and simplify EV charging management through a unified platform. "Just as UPI transformed digital payments, this initiative aims to strengthen India's EV charging ecosystem at scale," Kumaraswamy said.

The minister said that the initiative aims to address evolving infrastructure barriers and simplify EV charging management through a unified platform.

Ambani's cola war with rivals fuels fridge boom

SATVIKI SANJAY
May 12

THE MARKET SHARE war between Mukesh Ambani's Campa Cola, Coca-Cola and PepsiCo is creating an unlikely winner in the world's largest consumer market: refrigerators.

Reliance Industries' consumer goods unit and the American cola giants are on an expansion drive, installing commercial refrigerators in mom-and-pop stores across India. That's one of the factors driving growth for these so-called visi-coolers, Mohit Sud, group president for Unitary Cooling Products at Blue Star said.

"There is a certain tailwind in the segment," Sud said, adding that the category is growing faster than Blue Star's annual growth.

The market for commercial fridges in India, which includes visi-coolers, is expected to expand to \$3.9 billion by 2034, up from \$2.8 billion in 2025, according to the IMARC Group.

India's latest round of cola wars is revving up a decades-old marketing strategy to grab buyer interest: control the fridge to bolster sales. Competition in India's fast-expanding beverage market has intensified after three decades as Reliance Consumer Products' ₹10 fizzy drink Campa disrupted the market dominated by the American soda giants.

It also fuelled a parallel boom for refrigerator makers from Blue Star and Tata Group's Voltas to global names such as Haier Appliances India and

HOT BUSINESS



The market for commercial fridges in India, which includes visi-coolers, is expected to expand to **\$3.9 bn** by 2034, up from **\$2.8 bn** in 2025

Reliance's Campa achieved over **₹4,700 cr** sales in the year ended March 31 while Coca Cola's annual revenue was **₹5,170 crore**

Campa's launch has resulted in a boom for refrigerator makers from Blue Star and Voltas to global names such as Haier

closely held Western Refrigeration. Retail outlets keep beverages prominently displayed in these glass-door display units that act as marketing and distribution tools for adding market share.

"We are adding about close to half a million and maybe more chilling equipment, which is between Campa, Coke and ourselves," Ravi Jaipuria, chairman at PepsiCo's India bottler Varun Beverages, said at an earnings call last week. On top of this, the individual outlets are buying 400,000 to 500,000 coolers on their own, he added. **-BLOOMBERG**

INDRAPRASTHA MEDICAL CORPORATION LIMITED						
Registered office : Sarita Vihar, Delhi Mathura Road, New Delhi - 110076						
Corporate Identity Number : L24232DL1988PLC030958						
Phone: 91-11-26925858, 26925801, Fax: 91-11-26823629						
E-mail: imclshares@apollohospitals.com, Website: https://www.apollohospitals.com/delhi						
Extract of Statement of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2026						
S. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended		
		31.03.2026 (Audited)	31.12.2025 (Unaudited)	31.03.2026 (Audited)	31.03.2025 (Audited)	
1	Total income from operations (Net)	372.14	378.76	340.10	1511.26	1379.01
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	55.01	56.39	55.27	246.02	216.32
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	55.01	56.39	55.27	246.02	216.32
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	41.70	41.00	41.01	183.62	160.99
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	40.56	41.45	39.52	184.94	160.17
6	Paid-up Equity share capital (Face value Rs. 10/- each)	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the audited balance sheet of previous year				648.70	505.01
8	Earnings per share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - Basic & Diluted	4.55	4.47	4.47	20.03	17.56

The above is an extract of the detailed format of audited financial results for the quarter and year ended 31st March, 2026, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited financial results for the quarter and year ended 31st March, 2026, are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the company's website.

Place : New Delhi
Date : 12th May, 2026
Shivakumar Pattabhiraman (Managing Director)
DIN: 08570283

MOBIKWIK	
ONE MOBIKWIK SYSTEMS LIMITED	
CIN: L64201HR2008PLC053766	
Registered Office: Unit No. 102, 1st Floor, Block-B, Pegasus One, Golf Course Road, Sector-53, Gurugram, Haryana-122003	
STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE & CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2026	
I have considered and approved the audited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the quarter and year ended March 31, 2026.	
By Order of the Board One Mobikwik Systems Limited Sd/- Upasana Rupkrishan Taku Whole-time Director & Chief Financial Officer DIN: 02979387	
Place: Gurugram Date: May 12, 2026	
Note: The above information is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.	

ADITYA BIRLA REAL ESTATE LIMITED	
(Formerly Century Textiles and Industries Limited)	
Registered Office: Century Bhavan, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400030.	
Tel.: +91-22-2495 7000 • Fax: +91-22-2430 9491, +91-22-2436 1980	
Website: www.adityabirlarealestate.com • Email: cti.investorrelations@adityabirla.com	
CIN: L17120MH1897PLC00163	
NOTICE TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY Sub: Compulsory Transfer of Equity Shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Suspense Account	
NOTICE is hereby given pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ('IEPF Rules') notified by the Ministry of Corporate Affairs as amended from time to time.	
The IEPF Rules, amongst other, contain provisions of transfer of all the shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years or more to the Investor Education and Protection Fund Suspense Account ('IEPF Suspense Account').	
The Company has sent individual communication to the concerned shareholders at their address registered with the Company, or the Depositories informing them about their shares being liable to be transferred to IEPF Suspense Account. These relate to dividend declared for the financial year 2018-19 and which are liable to be transferred to the IEPF Suspense Account during the financial year 2026-27. The list of Shareholders along with the folio Number/DPID & Client ID to whom the intimation has been sent is uploaded on the website of the Company at www.adityabirlarealestate.com. Shareholders can verify the details of un-encashed dividends and shares liable to be transferred by visiting the Company's website. In case no communication is received from the Shareholders on or before 30 th June, 2026, the Company shall, in compliance with the said IEPF Rules transfer the shares to the IEPF Suspense Account.	
In order to enable the Company to credit the dividend amount directly into the bank account, the shareholders are requested to write/send an email to the Company or MUFG Intime India Private Limited (formerly Link Intime India Private Limited) ("RTA") at the address/email IDs mentioned below together with a copy of a cancelled cheque of the bank account into which the dividend should be credited; Form ISR-1 and ISR-2 duly filled; self-attested copy of PAN Card and request letter. In case the cancelled cheque does not bear the shareholder's name, copy of bank passbook statement duly self-attested should be attached.	
We take this opportunity to remind shareholders who have not registered their email IDs to do so at the earliest by registering the same at the below mentioned email IDs.	
Shareholders may note that even upon transfer of shares/ dividend to the IEPF Suspense Account, they can claim the said shares along with dividend(s) from IEPF, for which detailed procedure and requirements are available at www.iepf.gov.in.	
For further information/clarification on this matter, the concerned shareholders may contact on the following addresses of the Company or its RTA:	
Aditya Birla Real Estate Limited (formerly Century Textiles and Industries Limited) Century Bhavan, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai-400 030. Tel: 022- 2495 7000 E-mail ID: cti.investorrelations@adityabirla.com	MUFG Intime India Private Limited (formerly Link Intime India Private Limited) C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai-400 083. Tel: 022- 4918 6000 E-mail ID: investor.helpdesk@in.mps.mufg.com
For ADITYA BIRLA REAL ESTATE LIMITED (formerly Century Textiles and Industries Limited)	
Sd/- ATUL K. KEDIA Jt. President (Legal) & Company Secretary	
Place: Mumbai Date: 12 th May, 2026	

ACE sees rebound in equipment biz in second half of FY27

AKBAR MERCHANT
Mumbai, May 12

THE CONSTRUCTION EQUIPMENT sector is set for a rebound in FY27 after a muted FY26 with demand expected to pick up sharply in the second half of the fiscal, according to Action Construction Equipment (ACE).

The company, which reported a strong FY25 with revenue of ₹3,427 crore, an increase of 15% year-on-year, and Ebitda of ₹606 crore said growth in FY26 remained resilient despite industry expansion slowing to around 3%. Volumes were supported by sustained infrastructure activity across roads, railways and logistics, even as broader demand moderated.

"We see demand conditions for FY27 shaping up materially stronger than FY26," said Manish Mathur, CEO, cranes and construction equipment at ACE.

"We remain bullish about the second half of FY27, which we expect to be stronger as project execution accelerates," he added.

The outlook is underpinned by continued government spending, with public capex pegged at ₹12.2 lakh crore for FY27 out of which ₹11.21 lakh crore is already driving demand visibility across key infrastructure segments. ACE expects cranes, material handling and defence equipment to lead growth, with backhoe loaders and crawler cranes among the fastest-growing categories.

Margins are likely to remain stable or come in marginally higher, supported by operating leverage and a favourable product mix. "Higher-tonnage cranes and value-added equipment are helping improve realisations, while localisation and cost optimisation are mitigating commodity volatility," Mathur said.

ACE continues to dominate the domestic crane market, with over 63% share in mobile cranes, around 60% in tower cranes and up to 80% in self-erecting tower cranes. The company is also looking to scale its forklift business from around 19% market share to 25% over the next few years.

NIIT		MANAGED TRAINING SERVICES		NIIT Learning Systems Limited							
				Regd Office : Plot No. 85, Sector - 32, Institutional Area, Gurugram - 122001 (Haryana) India							
				Tel : +91 (124) 4293000 Fax : +91 (124) 4293333 Website : http://www.niitms.com Email : investors@niitms.com							
				Corporate Identity Number : L72200HR2001PLC099478							
				Extract of Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2026							
S. No.	Particulars	Consolidated					Standalone				
		Quarter ended		Corresponding 3 months ended March 31, 2025	Year ended		Quarter ended		Year ended		
		3 months ended March 31, 2026	Preceding 3 months ended December 31, 2025		Current year ended March 31, 2026	Previous year ended March 31, 2025	3 months ended March 31, 2026	Preceding 3 months ended December 31, 2025	Corresponding 3 months ended March 31, 2025	Current year ended March 31, 2026	Previous year ended March 31, 2025
		Audited (Refer note 4)	Unaudited	Audited	Audited	Audited	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from Operations	5,252.19	4,996.95	4,297.10	19,519.84	16,532.64	1,238.84	1,430.38	1,299.58	5,319.13	4,834.82
2	Net Profit for the quarter/year (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	654.02	839.19	700.35	3,039.58	3,174.66	181.41	299.17	292.42	1,383.17	1,547.84
3	Net Profit for the quarter/year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	940.34	948.20	692.87	3,311.79	3,063.57	181.41	163.89	292.42	1,247.89	1,547.84
4	Net Profit for the quarter/year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	771.13	743.43	487.15	2,477.23	2,275.00	136.33	127.89	226.24	1,046.27	1,287.30
5	Total Comprehensive Income for the quarter/year [Comprising Profit for the quarter/year (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	1,027.70	859.77	588.25	3,338.86	2,411.92	99.92	139.68	231.55	992.83	1,276.43
6	Paid-up equity share capital (face value of Rs. 2 each, fully paid)	275.04	274.33	272.25	275.04	272.25	275.04	274.33	272.25	275.04	272.25
7	Reserves excluding revaluation reserves				15,153.48	11,827.01				7,718.21	6,737.77
8	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (not annualised for the quarter, in Rs.)										
	- Basic	5.61	5.42	3.58	18.09	16.75	0.99	0.93	1.66	7.64	9.48
	- Diluted	5.48	5.28	3.45	17.66	16.15	0.97	0.91	1.60	7.46	9.14

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of quarterly / year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended). The full format of the quarterly / year ended Financial Results are available on the website of Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website under Investors -> Disclosures under Regulation 46 of the LODR -> Financial Results. The same can be accessed by scanning the QR code given below.
2 The above results were reviewed and recommended by Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on May 12, 2026.
3 Total Income from Operations represent revenue from operations.
4 On January 09, 2026 NIIT (USA), Inc. a wholly owned overseas subsidiary of the NIIT Learning Systems Limited acquired 100% equity stake in SweetRush Inc. along with its one subsidiary ("SweetRush Group") and executed Stock Purchase Agreement and other definitive agreements. The aggregate purchase price is up to USD 26.80 Million including earnout amount payable over the next five years based on performance of the SweetRush Group. Payments are subject to customary adjustments as per terms of definitive agreements. The Group has recorded identifiable intangible assets on provisional basis. The Consolidated Financial Results for the year ended March 31, 2026, include the performance of the SweetRush Group from January 10, 2026 to March 31, 2026. Consequently, the results for the current quarter/year are not comparable with the corresponding previous quarter/year.
5 The Board of Directors of the Company, subsequent to the year end, recommended a final dividend of Rs. 3.25 per equity share in the meeting held on May 12, 2026, subject to approval of the shareholders at the Annual General Meeting.

Place: Gurugram
Date: May 12, 2026
By order of the Board
For NIIT Learning Systems Limited
Sd/-
Vijay K Thadani
Vice-Chairman & Managing Director

MobiKwik

वन मोबिक्विक सिस्टम्स लिमिटेड

सीआईएन: L64201HR2008PLC053766

रजिस्टर्ड ऑफिस: यूनिट नंबर 102, प्रथम तल, ब्लॉक-बी, पेगासस वन, गोलफ कोर्स रोड, सेक्टर-53, गुरुग्राम, हरियाणा - 122003

फोन: 0124-4903344 ईमेल: cs@mobikwik.com वेबसाइट: www.mobikwik.com

लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण (एकल एवं समेकित) 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए

वन मोबिक्विक सिस्टम्स लिमिटेड ("कंपनी") के निदेशक मंडल में, मंगलवार, 12 मई, 2026 को आयोजित बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (एकल एवं समेकित) पर विचार किया और उन्हें मंजूरी दी ("वित्तीय परिणाम")।

वित्तीय परिणाम, वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट्स (www.bseindia.com एवं www.nseindia.com) तथा कंपनी की वेबसाइट (<https://www.mobikwik.com/ir/financial-statements>) पर पोस्ट कर दिए गए हैं और व्हाट्सएप कोड स्कैन करके भी उपलब्ध हैं।



निदेशक मंडल के आदेश से
वन मोबिक्विक सिस्टम्स लिमिटेड
एसडी/-
उपासना रूपकृष्ण टाकू
पूर्णकालिक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन: 02979387

स्थान: गुरुग्राम
तारीख: 12 मई, 2026

नोट: उपर्युक्त जानकारी सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के साथ पढ़े जाने वाले विनियम 47(1) के अनुसार है।

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष		
		31.03.2026 (अंकेषित)	31.12.2025 (अनअंकेषित)	31.03.2025 (अंकेषित)	31.03.2026 (अंकेषित)	31.03.2025 (अंकेषित)
1	परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	372.14	378.76	340.10	1511.26	1379.01
2	अवधि का शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, विशिष्ट और/या असाधारण मदों के पूर्व)	55.01	56.39	55.27	246.02	216.32
3	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (विशिष्ट और/या असाधारण मदों के बाद)	55.01	56.39	55.27	246.02	216.32
4	कर परचात अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (विशिष्ट और/या असाधारण मदों के बाद)	41.70	41.00	41.01	183.62	160.99
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [(अवधि का) (कर परचात) लाभ / (हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर परचात) शामिल है।]	40.56	41.45	39.52	184.94	160.17
6	चुक्ता शेयर पूंजी (अंकेषित मूल्य रु. 10/- प्रति)	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67
7	पिछले वर्ष के अंकेषित तुलना पत्र में दिखाए रिजर्व के अनुसार (विशेषकर रिजर्व को छोड़कर)				648.70	505.01
8	आय प्रति शेयर (मूल्य रु. 10/- प्रति) (जारी और बंद संघालनों के लिए) मूलभूत एवं डाइल्यूटेड	4.55	4.47	4.47	20.03	17.56

उपरोक्त विवरण 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के अंकेषित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है, जिसे सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के पास दाखिल किया गया है। 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के अंकेषित वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों (www.bseindia.com और www.nseindia.com) तथा कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12 मई, 2026

शिवकुमार पट्टाभिराम
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन: 08570283

सर्वजनिक घोषणा

ई-बीएमसी डीबी सूचना

वाराणसी ऑटो सेल्स लिमिटेड

(पंजीकृत प्रभुत्व में) की श्रुति और अवकाश की विधि के लिए
(सीआईएन U25112UP1977PLC004427 [VASL])

पंजीकृत कार्यालय: जे-15/65सी और जे-15/65सी-1ए, ग्रीडवेल अल्ट्रा, सीटी रोड, जैनपुर, वाराणसी - 221001।

(वित्तीय परिणाम और वित्तीय परिणामों के अंकेषित और/या असाधारण मदों के लिए एक ही बोलीदाता बोली लगा सकता है। एक बोलीदाता के रूप में बोलीदाताओं का चयन भी शामिल हो सकता है और उनमें से एक को सर्वश्रेष्ठ बidding के रूप में परचयना जाना जाएगा।) यदि कोई अतिरिक्त प्रश्न करते समय सभी सूचीबद्ध बोलीदाताओं का विवरण आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

1. निदेशक मंडल में मान लेने से पहले संबंधित बोलीदाता को मुझे, उसके स्वामित्व, स्वाम, मूज्ड निवारण, भू-चायव और कर्तव्य के मुद्दामें आदि की स्थिति जांच-पड़ताल करनी होगी।

कृपया ध्यान दें:
इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा शर्त की अनिवार्यता (ईओआई), धारा 29B घोषणा, गोपनीयता वचन और पात्रता मानदंडों के अनुसार अन्य दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि सोमवार, 25 मई, 2026 को शाम 5:00 बजे या उससे पहले है। इसमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि वे सीटिंग की धारा 29B के तहत किसी भी प्रकार की अनिश्चितता से ग्रस्त नहीं हैं, और यदि किसी भी तरह पर अग्रण प्राप्त होते हैं, तो उनका कोई भी स्थानांतरण जवाब देना नहीं होगा।

नीलामी के लिए सभी मई 2026 के निदेशक मंडल में घोषित बोलीदाताओं की अंतिम तिथि बुधवार, 29 मई, 2026 से सोमवार, 8 जून, 2026 तक (दोनों दिनों शामिल)।

इसमें जमा करने की अंतिम तिथि सोमवार, 9 जून, 2026 को शाम 6:00 बजे या उससे पहले।

नीलामी की तिथि और समय सुक्रवार, 12 जून, 2026 को सुबह 11:00 बजे से शाम 6:00 बजे के बीच बोली बुद्धि मूल्य: 10,00,000/- रुपये (दस लाख रुपये मात्र)।

i- <https://ibbi.banknet.com/eaction.ibbi/home> नीलामी प्रदाता का लिंक है। नीलामीकर्ता के संपर्क विवरण: support.banknet@psballiance.com, फोन: +91 8291220220 है।
ii- इच्छुक बोलीदाताओं को बोली प्रारंभ, आधिकारिक, 2016 की धारा 29B के तहत पात्रता की घोषणा और अन्य केवाईसी दस्तावेजों जैसे आवश्यक दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक नीलामी पोर्टल में जमा करने होंगे। खरीदारों के लिए मार्गदर्शिका उपलब्ध है। नीलामी पोर्टल पर जानकारी के लिए उपलब्ध है।
iii- ई-बीएमसी को मार्गदर्शिका में बताए गए विवरण के अनुसार नीलामी पोर्टल पर जमा करना होगा।
iv- निविदाएं केवल विवरण योग्यshupta31@gmail.com/liquidatorvasl@gmail.com
v- नीलामी मुद्रि से संबंधित दस्तावेज डाउनलोड करने के लिए: https://drive.google.com/drive/folders/1TzuP84GQYgRkGdQuRDSBA0ZlbnQ5L7usp?usp=drive_link
श्री योगेश गुप्त, मोबाइल नंबर 9831752939, पंजीकृत पता: मेरुस एच. जयसिंघान, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सूट नंबर 2बी, 2ई, दूसरी मंजिल, 12, हो पी निगद सलानी, छत्रालोक-700071।

वाराणसी ऑटो सेल्स लिमिटेड के लिए पंजीकृतकर्ता,
दिनांक 11.05.2026

RELIGARE ENTERPRISES LIMITED

CIN: L74899DL1984PLC146935
Regd. Office : First Floor, Office No. 101, 2E/23, Jhandewalan Extn., Swami Ram Tirth Nagar, Central Delhi, New Delhi, Delhi, India, 110055

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2026

(Rs. in Lakhs, unless otherwise stated)

Particulars	Standalone					Consolidated				
	Quarter Ended		Year Ended			Quarter Ended		Year Ended		
	March 31, 2026	Deember 31, 2025	March 31, 2025	March 31, 2026	March 31, 2025	March 31, 2026	Deember 31, 2025	March 31, 2025	March 31, 2026	March 31, 2025
1 Total Revenue from Operations	172.50	136.86	2.76	422.03	625.67	2,46,741.85	2,05,638.66	2,04,185.91	8,45,935.91	7,37,815.73
2 Net Profit / (Loss) for the quarters/years (before Tax, Exceptional and /or Extraordinary Items, and share in loss of joint venture)	(1,236.48)	(1,142.89)	(514.86)	(3,391.57)	(4,111.74)	12,716.94	(10,309.05)	22,211.14	8,726.21	24,330.01
3 Net Profit / (Loss) for the quarters/years before Tax (after Exceptional and /or Extraordinary Items and share in loss of joint venture)	(1,236.48)	(1,142.89)	(514.86)	(3,391.57)	(4,111.74)	12,716.94	(10,309.05)	22,211.14	8,726.21	24,330.01
4 Total Comprehensive Income for the quarter/period (after Tax and non-controlling Interest)	(1,236.66)	(1,129.94)	(1,805.93)	(3,379.46)	(3,809.02)	830.97	(4,267.14)	11,409.01	2,571.54	16,648.94
5 Equity Share Capital (Paid-up)	33,289.05	33,274.05	33,065.37	33,289.05	33,065.37	33,289.05	33,274.05	33,065.37	33,289.05	33,065.37
6 Other Equity (Excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet	NA	NA	NA	2,13,402.74	1,75,912.59	N.A.	N.A.	N.A.	2,57,539.88	2,18,452.18
7 Earnings Per Share (EPS) before and after extraordinary items (of Rs 10/- each, fully paid up)										
a. Basic EPS (face value of Rs 10 each fully paid up Rs)	(0.37)	(0.34)	(0.54)	(1.02)	(1.14)	2.47	(1.37)	3.00	2.59	3.79
b. Diluted EPS (Rs)	(0.37)	(0.34)	(0.54)	(1.02)	(1.14)	2.47	(1.37)	2.98	2.59	3.78

The above is an extract of the detailed format of quarter and year ended Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and year ended Financial Results is available on the Company's website www.religare.com and Stock Exchanges' website www.nseindia.com and www.bseindia.com.

Place: New Delhi
Date : May 12, 2026
Phone: +91-120-4384 941 | Website: www.religare.com | E-mail: investorservices@religare.com

For and on behalf of the Board of Directors
sd/-
Arjun Lamba
Executive Director

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL
CHANDIGARH BENCH CORPORATE
BHAWAN, PLOT NO. 4-B GROUND FLOOR,
SECTOR-27-B, MADHYA MARG,
CHANDIGARH-160019
Ref: NCLT/CHD/Reg.2026/Notice/527
Dated: 28.04.2026
NOTICE
C.P.(IB) No.69/Chd/Hry/2026
In the matter of:
Satvinder Singh Sodhi
Vs.
Babiecorn TechPrise LLP
Petitioner
Respondent
To,
Babiecorn TechPrise LLP
Registered Office At: Unit No.301-303,
Third Floor, Good Earth Business Bay,
Sector-58, Gurugram, Haryana-122002.
You are directed to attend (Court-1) comprising Hon'ble members of the Tribunal Sh. K. Biswal, Member (Judicial) and Sh. Shishir Agarwal, Member (Technical) on 26th May, 2026 at 10.30 AM on the hearing of the petition, personally or through any authorized agent/pleader and opportunity is given to file reply within two weeks after receipt of notice with a copy in advance to the counsel opposite.
Given under my hand and the seal of this Tribunal this 28th day of April, 2026. Sd/- (Rattan Kaur) Deputy Registrar

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि. विद्युत जानपद पारिषद मण्डल, आगरा अल्पकालीन ई-निविदा सूचना, दिनांक 12.05.2026

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु पृथक निविदा दो भागों (पार्ट-1) टेक्निकल विड एवं पार्ट-1। फाइनेंशियल) में आमंत्रित की जाती है। निविदा संख्या एवं कार्य का सक्षम विवरण 1. अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या 04/विंजं०पां० मं / आगरा /2026-27 - 132 केवी0 उपकेन्द्र सिकन्दाराक पर 01 नग 33 केवी0 बनसयत प्रोजेक्ट 'वे' के निर्माण हेतु जापदवीय निर्माण कार्य। कार्य के अनुमानित लागत :- ₹0 1.97 लाख (जोएस०टी० अतिरिक्त), कार्य अवधि :- 01 माह/ उक्त निविदा की Technical Bid एवं अन्य शर्तें तथा मात्रा बीजक इत्यादि का विस्तृत विवरण www.upptcl.org पर देखा जा सकता है एवं <http://etender.up.nic.in> साइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है। निविदा दिनांक 28.05.2026 को दोपहर 12:00 बजे तक साइट पर डाला/अपलोड किया जा सकता है तथा दिनांक 28.05.2026 को 15:00 बजे सार्वजनिक रूप से निविदाएं खोली जायेंगी। राष्ट्र हित में बिजली बचाए, हस्ता-अधीक्षण अभिवन्ता, विद्युत जानपद पारिषद मण्डल, पत्रांक 738/विंजं०पां०मं०/आ०/निविदा, दिनांक 12.05.2026

NIIT Learning Systems Limited

Regd Office : Plot No. 85, Sector - 32, Institutional Area, Gurugram - 122001 (Haryana) India
Tel : +91 (124) 4293000 Fax : +91 (124) 4293333 Website : <http://www.niitmts.com> Email : investors@niitmts.com
Corporate Identity Number : L72200HR2001PLC099478

Extract of Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2026

(Rs. in Millions, except per share data)

S. No.	Particulars	Consolidated					Standalone				
		Quarter ended		Year ended			Quarter ended		Year ended		
		3 months ended March 31, 2026	Preceding 3 months ended December 31, 2025	Corresponding 3 months ended March 31, 2025	Current year ended March 31, 2026	Previous year ended March 31, 2025	3 months ended March 31, 2026	Preceding 3 months ended December 31, 2025	Corresponding 3 months ended March 31, 2025	Current year ended March 31, 2026	Previous year ended March 31, 2025
1	Total Income from Operations	5,252.19	4,996.95	4,297.10	19,519.84	16,532.64	1,238.84	1,430.38	1,299.58	5,319.13	4,834.82
2	Net Profit for the quarter/year (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	654.02	839.19	700.35	3,039.58	3,174.66	181.41	299.17	292.42	1,383.17	1,547.84
3	Net Profit for the quarter/year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	940.34	948.20	692.87	3,311.79	3,063.57	181.41	163.89	292.42	1,247.89	1,547.84
4	Net Profit for the quarter/year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	771.13	743.43	487.15	2,477.23	2,275.00	136.33	127.89	226.24	1,046.27	1,287.30
5	Total Comprehensive Income for the quarter/year [Comprising Profit for the quarter/year (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	1,027.70	859.77	588.25	3,338.86	2,411.92	99.92	139.68	231.55	992.83	1,276.43
6	Paid-up equity share capital (face value of Rs. 2 each, fully paid)	275.04	274.33	272.25	275.04	272.25	275.04	274.33	272.25	275.04	272.25
7	Reserves excluding revaluation reserves				15,153.48	11,827.01				7,718.21	6,737.77
8	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (not annualised for the quarter, in Rs.)										
	- Basic	5.61	5.42	3.58	18.09	16.75	0.99	0.93	1.66	7.64	9.48
	- Diluted	5.48	5.28	3.45	17.66	16.15	0.97	0.91	1.60	7.46	9.14

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of quarterly / year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended). The full format of the quarterly / year ended Financial Results are available on the website of Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website under Investors -> Disclosures under Regulation 46 of the LODR -> Financial Results. The same can be accessed by scanning the QR code given below.
2 The above results were reviewed and recommended by Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on May 12, 2026.
3 Total Income from Operations represent revenue from operations.
4 On January 09, 2026 NIIT (USA), Inc, a wholly owned overseas subsidiary of the NIIT Learning Systems Limited acquired 100% equity stake in SweetRush Inc. along with its one subsidiary ("SweetRush Group") and executed Stock Purchase Agreement and other definitive agreements. The aggregate purchase price is up to USD 26.80 Million including earnout amount payable over the next five years based on performance of the SweetRush Group. Payments are subject to customary adjustments as per terms of definitive agreements. The Group has recorded identifiable assets on proportional basis. The Consolidated Financial Results for the year ended March 31, 2026, include the performance of the SweetRush Group from January 10, 2026 to March 31, 2026. Consequently, the results for the current quarter/year are not comparable with the corresponding previous quarter/year.
5 The Board of Directors of the Company, subsequent to the year end, recommended a final dividend of Rs. 3.25 per equity share in the meeting held on May 12, 2026, subject to approval of the shareholders at the Annual General Meeting.

By order of the Board
For NIIT Learning Systems Limited
Sd/-
Vijay K Thadani
Vice-Chairman & Managing Director

Place: Gurugram
Date : May 12, 2026

THE BUSINESS DAILY

FOR DAILY BUSINESS

FINANCIAL EXPRESS
Read to Lead